

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प.2(1)प्रा.शि./आयो./2017

जयपुर, दिनांक : 28/4/17

आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,  
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम  
नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार) प्रथम तल,  
भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम जयपुर।

विषय :- Maintenance of liability register in Form GFR 6 under Mid Day Meal Scheme (MDMS)-reg.

संदर्भ :- अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्रांक एफ15-1/2017-डेस्क (एमडीएम) दिनांक 26.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाँ प्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार से प्राप्त जो कि Maintenance of liability register in Form GFR 6 under Mid Day Meal Scheme (MDMS) के संबंध में संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया भारत सरकार के पत्र में दिए गए निर्देशानुसार सूचना भारत सरकार को भिजवाते हुए इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय



(सुनील कुमार शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

**MOST IMPORTANT**  
**Audit Matter**

F. No. 15-1/2017-Desk (MDM)  
Government of India  
Ministry of Human Resource Development  
Department of School Education & Literacy  
(Desk-MDM Section)  
\*\*\*\*\*

Shastri Bhavan, New Delhi.  
Dated: 26<sup>th</sup> April, 2017

श्री. वि. शायबाना) विभा.  
शासन सचिवालय, जयपुर  
संज्ञित संख्या 2868  
2017

2534  
27/4/17

To

State Education Secretaries of all States/UTs and Secretaries of  
Departments implementing MDM in schools

**Subject: Maintenance of liability register in Form GFR 6 under Mid Day Meal  
Scheme (MDMS) – reg.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to letter No. FRBM/4-4/Report2015-16/2016-17/  
dated 12.04.2017 received from Office of the Director General of Audit (Central  
Expenditure), New Delhi (copy enclosed) and to say that in terms of Rule 53 of GFR  
2005, Head of Office/Controller is required to maintain a liability Register in Form  
GFR 6 to have proper control over the expenditure, wherein bills pending for want of  
availability of funds are entered with full details, together with probable month and  
year in which expenditure will be accounted for in the departmental expenditure  
statement.

2. It is, therefore, requested that unpaid liability in respect of Mid-Day Meal Scheme  
(MDMS) may kindly be maintained in the prescribed format Form GFR 6 (copy  
enclosed) and annual reports be furnished to this Department for further  
transmission to DGA(CE).

Yours faithfully,

*Rajeev Kumar*

(Rajeev Kumar)

Under Secretary to the Government of India  
Tel. No. 011-23386024

Encl. : as above.

Urgent  
SSedv.  
JSC (R+P) an

26/4/17

*Porlop*  
27-4-17

261

75

**URGENT**

**Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)**

**I.P Estate, New Delhi – 110002**

No. FRBM/4-4/Report 2015-16/2016-17/

Dated 12.04.2017

To,

Rajiv Kumar  
Under Secretary

M/o HRD

Sheshki Bhawan, Delhi

**Sub: Unpaid liability in respect of Food Security for the year 2015-16.**

In terms of Rule 53 of GFR 2005, Head of Office/Controller Officer is required to maintain a liability register in Form GFR 6 to have proper control over the expenditure, wherein bills pending for want of availability of funds are entered with full details, together with probable month and year in which expenditure will be accounted for in the departmental expenditure statement.

National Food Security Act provides legal requirements for food security programme of the Government which include Mid Day Meal Scheme, Integrated Child Development Services and Public Distribution System and Integrated Child Development Services are universal in nature while Public Distribution System covers two-third of population in rural areas and one-half in urban areas.

In this connection, liability in respect of Mid Day Meal at the end of financial year 2016 i.e as on 31.03.2016 may be furnished by today positively. Further, the liability register in Form GFR 6 may also be produced.

This may please be accorded **TOP PRIORITY**.

(Deep Pant)

Sr. Audit Officer

(Ph 23454345)

Kc bprasad 1985@gmail.com  
gaoamgudgace@gmail.com



